



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23]
No. 23]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 1981/पौष 30, 1902
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 1981/PAUSA 30, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1981

सां०कां०नि० 28(अ)/आव०वस्तु०/गन्ना.—केंद्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सां०कां०नि० 575(अ)/आव०वस्तु०/गन्ना तारीख 8 अक्टूबर, 1980 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में "कर्नाटक" शीर्ष के अधीन स्तम्भ (1) के अधीन क्रम संख्या 13 के लिए और स्तम्भ (2) और (3) के अधीन उनमें सम्बन्धित तदनुकूली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

"1	2	3
13.	दि पांडवपुरा सहकारी शर्करा कारखाना लिमिटेड, पांडवपुरा जिला मंड्या	16.67"

[सं० 3-1/80एस०पी०वाई(डी-2)]

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th January, 1981

G.S.R. 28(E)/Ess.Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966 the Central Government, hereby, makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food), No.G.S.R. 575 (E)/Ess.Com./Sugarcane, dated the 8th October, 1980, namely:—

In the Sch dule to the said notification, under the heading "KARNATAKA", for serial number 13, under column (1) and the corresponding entries relating thereto under columns (2) and (3), the following serial number and entries shall be substituted :—

"1	2	3
13.	The Pandavpura Sahakara Sakhare Karkhana Ltd., Pandavapura, District Mandya.	16.67"

[No.3-1/80-SPY(D-II)]

सांकां० 29(अ)/सां०बस्तु०/गन्ना.—केन्द्रीय सरकार, गन्ना (नियंत्रण) अधिनियम, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उपखण्ड (1) में उल्लिखित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिन्हें परामर्श करना वह आवश्यक समझती है, गन्ना की आधिकारिक न्यूनतम कीमत 13.00 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर जो गन्ना की 8.5 प्रतिशत या उससे कम वसूली से सम्बद्ध है और जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वसूली की वृद्धि पर 15.2941 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे उपायधन अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को, गन्ना की उस न्यूनतम कीमत के रूप में तुरन्त नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्यात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखानों के स्वामियों या उनके अधिकारियों द्वारा कारखाने के द्वार पर या किसी त्रय केन्द्र पर परिवर्तित गन्ना के लिए चीनी वर्ष 1980-81 के लिए 30 सितम्बर, 1981 तक संदेय होगा किन्तु यह कीमत उक्त अधिनियम के खण्ड 3 के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन होगी।

अनुसूची		
क्रम सं०	कारखाने का नाम	गन्ने की प्रति क्विंटल कीमत रुपये में
1.	श्री छत्रपति शाह सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, कागल, जिला कोल्हापुर	18.05

[सं० 3-1/80-एस०पी०आई०(डी-2)]
सी० एन० राघवन, संयुक्त सचिव (चीनी)

G.S.R. 29(E)/Fss.Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966 and having regard to various factors mentioned in sub-clause (1) thereof the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it, to be consulted, hereby, on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 13.00 per quintal linked to recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, fixes with immediate effect, the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price and shall be payable by the owners of vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said schedule, or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or at any purchasing centre for the sugar year 1980-81 until the 30th September, 1981, subject to the rebates payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Factory	Minimum Sugarcane price in rupees per quintal
1	2	3
1.	Shree Chhatrapati Shahu Shakari Shakhar Karkhana Limited, Kagal, District Kolhapur.	18.05

[No. 3-1/80 SPY(D-II)]
C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy. (Sugar)